

Pledged to EE, RWD, works Division, Muzaffarpur...

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2

पत्रांक 1997 अनु०

मुज० / दिनांक 25-08-2023

प्रेषक,

Branch Mainager,
Bank Of Baroda,
Tilak Maidan Road Muz.

विषय :-

BG/TD/FD/NSC सत्यापित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में कहना है कि संवेदक Ajay Kumar द्वारा 1. Badari Prasad Ke Ghar Se Barewa Pokhar, 2. NH-57 Mamarwachak to Mitra Ray Ke Ghar Tak, 3. Hariharpur Bhagat Hosue to Lal Dev Ram House, 4. PMGSY Pul Se Mahadalit Tola, 5. Hathouri PWD Road Se Bhagwanpur Ghoncha, 6. Maidapur to Sharfuddinpur Package No- MR-N/23-24 Muzaffarpur East-2/14, Tender ID-124368 in Bochaha Block under MR3054. (पथ के एकरारनामा करने हेतु निम्नलिखित BG/TD/FD/NSC समर्पित किया गया है जो इस कार्यालय के नाम से Pledges है की सत्यापित करने की कृपा की जाये।

क्र०सं०	BG No/FD A/C No	Issue date	Expiry Date	Amount
1	FD-78960300005573	23.08.2023	25.09.2024	2565000.00
2	BG- BG/78/23-24	23.08.2023	22.08.2024	785000.00

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी-2

25/8/23

FD NO- 78960300005573 Pledged to Executive Engineer, RWD Works Division, Muzaffarpur East-2.



कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2

पत्रांक 1998

मुज0 / दिनांक 25/08/2023.

प्रेषक,

Branch Mainager,
Canara Bank, Muz.

विषय :-

BG/TD/FD/NSC सत्यापित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में कहना है कि संवेदक Ajay Kumar द्वारा 1. Badari Prasad Ke Ghar Se Barewa Pokhar, 2. NH-57 Mamarwachak to Mitra Ray Ke Ghar Tak, 3. Hariharpur Bhagat Hosue to Lal Dev Ram House, 4. PMGSY Pul Se Mahadalit Tola, 5. Hathouri PWD Road Se Bhagwanpur Ghoncha, 6. Maidapur to Sharfuddinpur Package No- MR-N/23-24 Muzaffarpur East-2/14, Tender ID-124368 in Bochaha Block under MR3054. (पथ के एकरारनामा करने हेतु निम्नलिखित BG/TD/FD/NSC समर्पित किया गया है जो इस कार्यालय के नाम से Pledges है की सत्यापित करने की कृपा की जाये।

क्र०सं०	BG No/FD A/C No	Issue date	Expiry Date	Amount
1	BG - BG/30/2023-24	08.05.2023	05.11.223	1140000.00

2. BG-BG/78/2023-24 ✓

23-08-2023

22-08-2024

7,85,000.00

विश्वासभोजन

Verified and found correct.



कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी-2

MK
25/8/23

Pledged to EE, RWD, works Division, Muzaffarpur East-2



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank



24/08/2023

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

AJAY KUMAR

KANHAI BISHUNDATT
OPP R K ASHARAM BELA
842001
INDIA

योजना / Scheme

BARODA HIRANGA PLUS DEPOSIT

नामांकन / Nomination

Y

नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.

23082023

पैन नंबर / PAN No.

ANUPK8927D

परिचालन पद्धति / Mode of
Operation

SELF

लियन चिह्नित / Lien Marked

N

सावधि खाता क्र./ FD A/c No

78960300005573

सावधि सूचना क्र./ FD Advice No

FDR2308232511

कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No

BO0065142

व्यवहार खाता / Linked Operative a/c

78960200002096

शाखा का नाम/Branch Name

MUZAFFARPUR

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

अभिभावक का नाम

(यदि खाताधारक अवयस्क है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
2565000	23-08-2023	7.25	0 Months 399 Days	25-09-2024	2774096

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है।
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज।
3. यदि क्लॉज नवीकरण के लिए 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय नवीकरण पर प्रभावी व्याज दरों के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
4. कोई नवीकरण न किए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय नवीकरण पर प्रभावी व्याज दरों के अनुसार नहीं हो अधिक के लिए किया जाएगा।
5. फॉर्म 15G और 15H (यदि लागू) निम्नलिखित खातों के लिए है।
6. निम्नलिखित शर्तें/Conditions:
7. 1. क्रॉज से जमा की जमा राशि को समझौते बंद करने पर 1% बंद का प्रावधान है। शेष टीडीएस के अधीन की तिथि पर लागू बंद दर से 1% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा।
8. 2. 1. क्रॉज और इससे अधिक की जमा राशियों को समझौते बंद करने पर 1.5% बंद का प्रावधान है। शेष टीडीएस के अधीन की तिथि पर लागू बंद दर से 1.5% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा। 3. 1. क्रॉज और इससे अधिक की जमा राशि को समझौते बंद करने के लिए, अवधि के अंतर्गत से कम से कम 31 दिनों पूर्व बैंक को सूचना दी जानी चाहिए।
9. 2. 1. क्रॉज और इससे अधिक की जमा राशियों को समझौते बंद करने पर 1.5% बंद का प्रावधान है। शेष टीडीएस के अधीन की तिथि पर लागू बंद दर से 1.5% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा। 3. 1. क्रॉज और इससे अधिक की जमा राशि को समझौते बंद करने के लिए, अवधि के अंतर्गत से कम से कम 31 दिनों पूर्व बैंक को सूचना दी जानी चाहिए।
10. 3. 1. क्रॉज और इससे अधिक की जमा राशियों को समझौते बंद करने पर 1.5% बंद का प्रावधान है। शेष टीडीएस के अधीन की तिथि पर लागू बंद दर से 1.5% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा। 3. 1. क्रॉज और इससे अधिक की जमा राशि को समझौते बंद करने के लिए, अवधि के अंतर्गत से कम से कम 31 दिनों पूर्व बैंक को सूचना दी जानी चाहिए।
11. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
12. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
13. 6. Premature Withdrawal Clause:
14. i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
15. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
16. 7. In case of NON-CALLABLE DEPOSIT - Premature withdrawal not allowed

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



